



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 418) पटना, बृहस्पतिवार, 23 अगस्त 2012

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

22 अगस्त 2012

सं0 4 (न) निर्वा-01/09-2918—चूँकि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत, तेघड़ा (बेगूसराय) का गठन करने का निर्णय लिया गया है,

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है,

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर पंचायत, तेघड़ा के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 23 सितम्बर, 2012 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 418-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>